



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 2019/चैत्र 19, 1941

No. 244]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 2019/CHAITRA 19, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 293(अ).—केंद्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का नाम सिक्का निर्माण (जलियांवाला बाग नरसंहार शताब्दी के अवसर पर संवेदना सिक्के जारी करना) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्कों का अंकित मूल्य- “जलियांवाला बाग नरसंहार शताब्दी” के अवसर पर केन्द्र सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने हेतु एक साल में एक सौ रुपये मूल्यवर्ग के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा।

3. सिक्कों की विमाणं और संरचना - नियम 2 में उपर्युक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाणं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु रजत- 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन** – सिक्कों का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

5. **मानक वजन तथा अनुज्ञात छूट** - जलियांवाला बाग नरसंहार शताब्दी के अवसर पर संवेदना स्वरूप बनाए गए उपर्युक्त अंकित मूल्य के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात छूट इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

(i) एक सौ रुपये

अग्र भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **“सत्यमेव जयते”** उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में **“भारत”** शब्द और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में **“INDIA”** शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **“₹”** और अंतरराष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **“100”** भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर जलियांवाला बाग नरसंहार के स्मारक का चित्र होगा। सिक्के की ऊपरी और निचली परिधि पर देवनागरी लिपि में **“जलियांवाला बाग नरसंहार शताब्दी”** तथा अंग्रेजी में **“Centenary of Jallianwala Bagh Massacre”** उत्कीर्णित होगा। स्मारक के नीचे अंतरराष्ट्रीय अंकों में वर्ष **“2019”** अंकित होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुमत छूट	
		संघटन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	35 ग्राम	रजत में 1/500वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् रजत के अंश में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा।	1/100वां कम या अधिक अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम के बीच हो सकता है।

[एफ. सं. 02/18/2018-सिक्का]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMICS AFFAIRS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2019

G.S.R. 293(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Centenary of Jallianwala Bagh Massacre) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coins.**- The coin of One Hundred denomination shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of “Centenary of Jallianwala Bagh Massacre”.

3. Dimension and composition of coins. - The coin of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeters	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent Copper -40 per cent Nickel - 05 per cent Zinc - 05 per cent

4. Design.- The design of the coins shall be as specified in the First Schedule to these rules.

5. Standard weight and remedy allowed.- The standard weight of the coins of above denomination coined to commemorate the occasion of Centenary of Jallianwala Bagh Massacre and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

FIRST SCHEDULE

(See Rule 4)

ONE HUNDRED RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “100” in the International Numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of coin shall bear the picture of Memorial of Jallianwala Bagh Massacre. The inscription “जलियांवाला बाग नरसंहार शताब्दी” in Devanagri script and “Centenary of Jallianwala Bagh Massacre” in English shall be written on the upper and lower periphery of the coin. The year “2019” in International Numeral shall be flanked at bottom of the monument.

SECOND SCHEDULE

(See Rule 5)

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	35 Grams	1/500 th plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus, that is to say weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/18/2018-Coin]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.